



जागरण

सात लाख की नकली शराब बरामद, पिकअप वैन जब्त

Publish Date: Fri, 12 Apr 2019 06:25 AM (IST)



नगर पुलिस ने सात लाख रुपये से अधिक राशि की एक सौ बीस पेटी अवैध विदेशी शराब को पिकअप वैन समेत जब्त किया है।

जागरण संवाददाता, गिरिडीह: नगर पुलिस ने गुरुवार को को अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। टाइगर पुलिस ने हुट्टी बाजार स्थित हटिया परिसर से सात लाख रुपए से अधिक की एक सौ बीस पेटी अवैध शराब पिकअप वैन समेत जब्त की है। नकली शराब की बोतलों पर विदेशी शराब का लेबल लगा था।

नगर थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने बताया कि रामनवमी को लेकर टाइगर मोबाइल पुलिस की टीम शहर में विधि व्यवस्था को लेकर भ्रमण कर रही थी। इसी क्रम में डुमरी की ओर से एक पिकअप वैन संख्या शहर की ओर आ रही थी। हुट्टी बाजार के पास टाइगर पुलिस के जवानों पर नजर पड़ते ही चालक वाहन को तेज गति से मोड़ते हुए हटिया परिसर में ले गया। इसके बाद वैन को वहां खड़ा कर फरार हो गया। पुलिस के जवान शक के आधार पर वाहन का पीछा कर जब वहां पहुंचे तो परिसर में वाहन लावारिस अवस्था में खड़ा मिला। जांच में वैन में अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। शराब लदे वाहन को थाना लाया गया है। कार्रवाई में राजेश कुमार, एडमिन तिग्गा, सुभाष टोप्पो व राकेश सिंह की अहम भूमिका रही।

उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक त्रिपुरारी कुमार ने बताया कि नगर पुलिस ने जिस विदेशी शराब को जांच के क्रम में जब्त की है, वह अवैध है। अवैध शराब पर अंकुश लगाने को लेकर की जा रही छापेमारी अभियान के तहत इसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। जब्त अवैध शराब की कीमत बाजार मूल्य के रूप में सात लाख बीस हजार रुपये आकी जा रही है।

Posted By: Jagran

Source: <https://www.jagran.com/jharkhand/giridih-illegal-liquor-seized-in-huge-amount-19125017.html>